

# **Important LOTO Devices**

**Lockout** is the placement of a lockout device on an energy isolating device, in accordance with an established procedure, ensuring that energy isolating device and the equipment being controlled cannot be operated until lockout device is removed.

Ref: OSHA std. 1910.147(b)



## ***LOCKOUT STATION***

**Holds Hasps, Tags, Padlocks.**

**Indicates IN-USE status if content(s) is/ are withdrawn.**



## ***PADLOCK***

**Allows authorized personnel to lock & isolate energy source.**



## ***HASP***

**Allows isolation of energy sources through multiple padlocks by each authorized person.**



## ***TAG***

**Warns not to re-energize/ operate the equipment until it is removed.**

**Important Electrical Lockout Tagout (LOTO) Devices**

- **Electrical Panel Lockout**
- **Electrical Panel Handle Lockout**
- **Push Button Lockout**
- **Cable Lockout**
- **Electrical Plug Lockout**
- **Circuit Breaker Lockout**



**MUMBAI PORT TRUST  
SAFETY MANAGEMENT CELL**



# महत्वपूर्ण लोटो उपकरण

**लॉकआउट** एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, एक ऊर्जा पृथक उपकरण पर एक लॉकआउट डिवाइस की नियुक्ति है, यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा अलग करने वाले उपकरण और नियंत्रित किए जा रहे उपकरण तब तक संचालित नहीं किए जा सकते जब तक कि लॉकआउट डिवाइस को हटा नहीं दिया जाता है।

Ref: OSHA std. 1910.147(b)



## लॉकआउट स्टेशन

हस्प्स, टैग, पैडलॉक रखता है।

यदि सामग्री को वापस ले लिया जाता है/हैं तो IN-USE स्थिति को इंगित करता है।



## पैडलॉक

अधिकृत कर्मियों को ऊर्जा स्रोत को लॉक और अलग करने में मदद करता है।



## हस्प्स

प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति द्वारा कई पैडलॉक के माध्यम से ऊर्जा स्रोतों को अलग करने में मदद करता है।



## टैग

उपकरण को हटाए जाने तक पुनः सक्रिय/संचालित नहीं करने की चेतावनी देता है।

महत्वपूर्ण  
विद्युतीय  
लॉकआउट टैगआउट  
(LOTO)  
उपकरण

- विद्युत पैनल लॉकआउट
- विद्युत पैनल हैंडल लॉकआउट
- पुश बटन लॉकआउट
- केबल लॉकआउट
- विद्युत प्लग लॉकआउट
- सर्किट ब्रेकर लॉकआउट



मुंबई पोर्ट ट्रस्ट  
सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ



